



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2017/चैत्र 1, 1939

No. 220]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2017/CHAITRA 1, 1939

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2017

सा.का.नि. 278(अ).—सेवाओं अथवा लाभों अथवा राजसहायता को देने के लिए आधार कार्ड के पहचान संबंधी उपयोग से सरकार की संवितरण प्रक्रिया सरल होती है, इससे पारदर्शिता एवं कुशलता आती है और इसके द्वारा लाभार्थी अपनी हकदारियों को सरलतापूर्वक और वगैर किसी कठिनाई के सीधे प्राप्त कर लेते हैं और आधार के कारण व्यक्ति को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अनेकों दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है;

जबकि कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (आगे से इसे विभाग कहा जाएगा) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (एमएएनएजीई), हैदराबाद के जरिए वर्ष 2002-03 से कृषि निदानालयों और कृषि व्यापार केंद्रों और (एसी और एबीसी) (इसके बाद इसे एसी और एबीसी स्कीम कहा जाएगा) को संचालित कर रहा है;

और जबकि एसी और एबीसी स्कीम के निमित्त भारतीय समेकित निधि से खर्च प्राप्त किया जाता है;

अब आधार (वित्तीय और अन्य राज सहायता राशियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित संवितरण) अधिनियम, 2016 (2016 को 18) बाद में अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नांकित को अधिसूचित करती है-

1. एसी और एबीसी स्कीम के तहत पंजीकृत व्यक्ति (नोडल प्रशिक्षण संस्थान (एनटीआई) प्रशिक्षणार्थी, एसी और एबीसी प्रशिक्षणार्थी अथवा कृषि उद्यमी) को एतद्वारा आधार संख्या रखने संबंधी सबूत देना होगा अथवा उसे सिद्ध करना होगा कि वह आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया के अधीन है।
2. एसी और एबीसी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने का पात्र कोई व्यक्ति (नोडल प्रशिक्षण संस्थान (एनटीआई) प्रशिक्षणार्थी, एसी और एबीसी प्रशिक्षणार्थी अथवा कृषि उद्यमी) जिसके पास आधार संख्या नहीं है अथवा जिसने अभी तक आधार प्राप्त करने हेतु नामांकन नहीं कराया है और इसके बावजूद वह एसी और एबीसी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है, को 31 मार्च, 2017 तक एतद्वारा आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा बशर्त की वह उक्त अधिनियम की धारा III के अनुसार आधार प्राप्त करने का/की पात्र हो। आधार में नामांकन कराने के इच्छुक ऐसे सभी व्यक्ति किसी भी आधार नामांकन केंद्र में जा सकते हैं। (www.uidai.gov.in) पर सूची उपलब्ध है।

3. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अनुसार जिस विभाग को आधार प्रस्तुत करना अपेक्षित है, इसके द्वारा एमएएनएजीई, हैदराबाद के जरिए उन लाभार्थियों के लिए नामांकन सुविधा देनी होगी जिनका अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं हुआ है और यदि संबंधित प्रखंड अथवा ताल्लुक अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है तो विभाग को एमएएनएजीई, हैदराबाद के जरिए मौजूदा यूआईडीएआई पंजीयकों के समन्वयन में अथवा स्वयं यूआईडीएआई पंजीयक बनकर सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधा उपलब्ध करानी होगी:

बशर्ते कि एसी और एबीसी स्कीम के लाभार्थियों को आधार दिए जाने तक उक्त स्कीम के तहत मिलने वाले लाभों को ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए बशर्ते कि वह निम्नांकित शिनाख्ती दस्तावेज प्रस्तुत करे-

- (क) (i) यदि उसने अपना नामांकन करा लिया है तो उसे आधार नामांकन आईडी स्लिप; अथवा
- (ii) नीचे पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ (2) में किए गए उल्लेख के अनुसार आधार नामांकन के लिए किए गए आवेदन की एक प्रति; और
- (ख) (i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड; अथवा (ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या कार्ड अर्थात् पैन नंबर कार्ड; अथवा (iii) पासपोर्ट; अथवा (iv) मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988) के तहत लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; अथवा (v) राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा सरकारी लेटर हेतु पर जारी पहचान प्रमाणपत्र जिसमें फोटो भी लगा हो; अथवा (vi) डाक विभाग द्वारा जारी एड्रेस कार्ड जिस पर नाम और फोटो हो; अथवा (vii) किसान फोटो पासबुक; अथवा (viii) राज्य सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

बशर्ते कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजनार्थ एमएएनएजीई, हैदराबाद के जरिए विभाग द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा की जाए।

2. एसी और एबीसी स्कीम के तहत लाभार्थियों को सुलभ और बाधारहित हकदारी देने के लिए विभाग निम्नांकित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा-

1. एसी और एबीसी स्कीम के लाभार्थियों को स्कीम के तहत आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के प्रयोजनार्थ मीडिया और निजी व्यवस्था के जरिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा और उन्हें यह सुझाव दिया जाएगा कि वे पहले से ही नामांकित न होने की स्थिति में 31 मार्च, 2017 तक अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर अपना नामांकन करा लें। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची मुहैया कराई जाएगी।
2. यदि एसी और एबीसी स्कीम के लाभार्थी अपने आसपास यथा प्रखंड अथवा तहसील अथवा तालुका में नामांकन केंद्र न होने के कारण अपना नामांकन न करा सकें तो विभाग को एमएएनएजीई, हैदराबाद के जरिए यूआईडीएआई के मौजूदा पंजीयकों के समन्वयन में अथवा स्वयं यूआईडीएआई पंजीयक बनकर सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी और एसी और एबीसी स्कीम के लाभार्थी एमएएनएजीई, हैदराबाद के जरिए विभाग के पास उपलब्ध पैराग्राफ I के उपपैराग्राफ (3) के पहले परंतुक में उल्लिखित अन्य विवरण और अपना नाम, पता, मोबाइल संख्या देकर नामांकन के लिए अपने आवेदन को पंजीकृत करा सकते हैं।
3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों को छोड़कर राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी।

[फा. सं. 1(2)/2016-ईएम (भाग)]

अमिताभ गौतम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Cooperation And Farmers Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2017

G.S.R. 278(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (hereinafter referred to as the Department) is administering the Agri-Clinics and Agri-Business Centres (AC&ABC) (hereafter referred to as the AC&ABC Scheme) since 2002-03 through National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad;

And whereas, the AC&ABC Scheme involves expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore in pursuance of the provisions of the Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and services) Act, 2016 (18 of 2016) hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual (Nodal Training Institute (NTI) Trainee, AC&ABC Trainee or Agri-Entrepreneur) registered under the AC&ABC Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any individual (Nodal Training Institute (NTI) Trainee, AC&ABC Trainee or Agri Entrepreneur) entitled to receive benefit under the AC&ABC Scheme who does not possess the Aadhaar Number or has not yet enrolled for Aadhaar, but are desirous of availing benefits under AC&ABC Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act. All such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
- (3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through MANAGE, Hyderabad which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through MANAGE, Hyderabad is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI registrar themselves:

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the beneficiaries of AC&ABC Scheme, benefits under the said Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following identification documents, namely:-

- (a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of Paragraph 2 below; and
- (b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) any other document as specified by the State Government or Union Territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department through MANAGE, Hyderabad for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free entitlements to the beneficiaries under the AC&ABC Scheme, the Department shall make all the required arrangements including following, namely:—

(1) Wide publicity through media and in individual notices shall be given to beneficiaries of AC&ABC Scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas by 31st March, 2017 in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of AC&ABC Scheme are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Tehsil or Taluka, the Department through MANAGE, Hyderabad is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI registrar themselves and the beneficiaries of AC&ABC Scheme may register their request for enrolment by giving their name, address, mobile number and other details specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with Department through MANAGE, Hyderabad.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 1(2)/2016-EM (Part)]

AMITABH GAUTAM, Jt. Secy.